

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 636]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2014—पौष 8, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 17(ई) 261-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला भोपाल, मध्यप्रदेश हेतु नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को नगरीय निकायों निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत 2014-15 निर्वाचन हेतु कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदाय किये जाने हेतु प्रस्ताव जिला-भोपाल

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)	कार्यालय (3)
1	श्री अमर सिंह परमार, संयुक्त संचालक	कृषि संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश, भोपाल
2	श्री आर.आर. मीणा, कार्यपालन यंत्री	कार्यालय, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल
3	श्री बी.डी. शर्मा, उप संचालक	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र., भोपाल
4	श्री नीरज व्यास, कार्यपालन यंत्री	कार्यालय, मुख्य अभियंता (ऊर्जा) नर्मदाघाटी वि.प्रा., 59 अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल.
5	डॉ. एन. आर. सोनी, उप संचालक	कार्यालय, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें (माता महामारी) म.प्र., भोपाल

(1)	(2)	(3)
6	श्री जी.पी. प्रजापति, संयुक्त संचालक	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश, भोपाल
7	श्री जी.पी. सोनकर, कार्यपालन यंत्री	कार्यालय, मुख्य अभियंता (लो.नि.वि.) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल.
8	श्री हेमन्त मोर्य, कार्यपालन यंत्री	वि/यां लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग, जल संसाधन विभाग, भोपाल
9	श्री राजेश बिसारिया, अधीक्षण यंत्री	कार्यालय, प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल.
10	श्री जे.पी. पोरवाल, संयुक्त संचालक	आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
11	श्री के. एन. त्रिपाठी, कार्यपालन यंत्री,	नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 23, 59 अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल
12	श्री के.पी. अहरवाल, संयुक्त संचालक	संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
13	श्री मुन्नालाल जैन, संयुक्त संचालक	संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
14	श्री ओ.पी.एस. नरवरिया, उप संचालक	संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
15	श्री सुनील कुमार खरे, अधीक्षण यंत्री	कार्यालय, प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल.
16	श्री आर.के. चौधरी, कार्यपालन यंत्री	कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल
17	श्री आर.एल. हनुवत, संयुक्त संचालक	संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
18	श्री आर.पी. साहू, संयुक्त संचालक	संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
19	श्री ज्योतमय घोष, सहायक यंत्री	कार्यालय, मुख्य अभियंता (ऊर्जा) नर्मदाघाटी वि.प्रा., 59 अरेरा हिल्स नर्मदा भवन, भोपाल.
20	श्री राजकुमार सोनी, उप संचालक	स्थानीय निधि संपरीक्षा, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
21	श्री एस.के. शेन्डे, कार्यपालन यंत्री	कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल
22	श्री व्ही. प्रदीप, कार्यपालन यंत्री	कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल
23	श्री विजय कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, भोपाल
24	श्री ए.के. पाण्डे, उप संचालक	म.प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, 74 अरेरा हिल्स, केन्द्रीय विद्यालय, भोपाल
25	श्री एस. ए. खान, अधीक्षण यंत्री	कार्यालय, प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल.
26	श्री पी.के. कुरील, उप संचालक	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
27	श्री आर.बी. राय, कार्यपालन यंत्री	कार्यालय, गुणवत्ता नियंत्रक इकाई पत्रकार कालोनी के सामने, भोपाल
28	श्री अजय जासू, संयुक्त संचालक	आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
29	श्री अनिल कुमार जैन, सहा. यंत्री,	कार्यालय मुख्य अभियंता (बोधी) जल संसाधन विभाग, विश्ववैश्वरैया भवन कोलार कालोनी कैम्पस लिंक रोड नम्बर 3, भोपाल.
30	श्री अविनाश परिहार, उप संचालक	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
31	श्री अशुतोष श्रीवास्तव, उप संचालक	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
32	श्री सी.एल. वर्मा, उप संचालक	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

(1)	(2)	(3)
33	श्री दीपक परिहार, उप संचालक	संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जवाहर चौक, भोपाल
34	श्री दीपक जोशी, उप महाप्रबंधक	दि. म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लिमिटेड, पर्यावास भवन, भोपाल
35	डॉ. अनुपम अग्रवाल, सहायक संचालक	संचालनालय, पशुपालन वैशाली नगर, भोपाल
36	डॉ. विकास सक्सेना, सहायक संचालक	संचालनालय, पशुपालन वैशाली नगर, भोपाल
37	श्री जे. सी. भलावी, संयुक्त संचालक	आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल
38	श्री जी. एस. चौहान, उप संचालक	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
39	श्री मकरन गोलवलकर, सहा. यंत्री	कार्यालय, मुख्य अभियंता (बोधी) जल संसाधन विभाग विश्ववैश्वरैया भवन कोलार कालोनी कैम्पस, लिंक रोड, नम्बर-3, भोपाल.
40	श्री मनोज बहेरिया, उप संचालक	स्थानीय निधि संपरीक्षा, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
41	श्री एन. के. गुप्ता, उपायुक्त	म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, पांच नम्बर बस स्टाप, रविशंकर मार्केट, भोपाल.
42	श्री एच.के. हयारण, सूचना अधिकारी	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल.
43	श्री आर. एच. प्रेम, महाप्रबंधक	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित, प्रथम तल पंचानन भवन, मालवीय नगर, भोपाल.
44	श्री सतीश कुमार गुप्ता, संयुक्त संचालक	संचालनालय संस्थागत वित्त, विंध्याचल भवन, भोपाल
45	श्री विक्रमादित्य सिंह, अपर संचालक	आयुक्त अनुसूचित जाति विकास, राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
46	श्री सैय्यद वाहिद अली, वरिष्ठ प्रबंधक वित्त	मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, पुस्तक भवन अरेरा हिल्स, भोपाल
47	श्री आर. के. गुप्ता, सहायक यंत्री	कार्यालय, मुख्य अभियंता (ऊर्जा) नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण, 59 अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल.
48	श्री एम. एस. इसाड, प्रबंधक मुद्रण	मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
49	श्री अशोक रंजन दुबे, वरिष्ठ प्रबंधक वित्त	मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
50	श्री जे. पी. नामदेव, प्रोजेक्टर सुपरवाइजर	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन पर्यावरण परिसर ई-5, सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल.
51	श्री सी. पी. गुप्ता, सिस्टम एनालिस्ट	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन पर्यावरण परिसर ई-5, सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल.
52	श्री बी.एस. डोडवे, अपर आयुक्त	म.प्र. लघु बनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित 74 बंगले इंदगा निकुंज खेल परिसर, भोपाल.
53	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, उप संचालक	जिला रोजगार कार्यालय, जिला भोपाल
54	श्री यू. एस. नायडू	संयुक्त संचालक, उद्योग उद्योग संचालनालय, म.प्र. भोपाल
55	श्री अनिल दावेकर, उप महाप्रबंधक	एम.पी. स्टेट एग्रो इण्ट्री. डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल.
56	श्री अतुल कुमार मिश्रा, उप वनसंरक्षक	कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी, सतपुड़ा भवन, भोपाल.

(1)	(2)	(3)
57	श्री एम. एल. अग्रवाल, कार्यपालन यंत्री	कार्यालय, मुख्य अभियंता (ऊर्जा) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, 59 अरेरा हिल्स नर्मदा भवन, भोपाल.
58	श्री बी. एस. मुवेल, कार्यपालन यंत्री	कार्यालय, मुख्य अभियंता (बोधी) जल संसाधन विभाग विश्वेश्वरैया भवन कोलार कालोनी कैम्पस, लिंक रोड, नम्बर-3, भोपाल.
59	श्री बैजनाथ कबीर पंथी, उप संचालक	उद्योग, उद्योग संचालनालय, म.प्र. भोपाल
60	श्री डी. के. पुराणिक, उप महाप्रबंधक	एम.पी. स्टेट एग्री इंस्टी. डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल.
61	डॉ. पी. एस. पटेल, उप संचालक	कार्यालय, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, जिला भोपाल
62	डॉ. एस. पी. सिंह, पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी	कार्यालय, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, जिला भोपाल
63	डॉ. यू.एम. शुक्ला, वरिष्ठ शोध अधिकारी	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन पर्यावरण परिसर ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल.
64	डॉ. एस. एस. के. नायडू, उप संचालक	उद्योग, उद्योग संचालनालय, म.प्र., भोपाल
65	डॉ. संजीव सचदेव, वरिष्ठ शोध अधिकारी	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन पर्यावरण परिसर ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल.
66	श्री जगदीश तोमर, कार्यपालन यंत्री	कार्यालय, अधीक्षण यंत्री, कोलार परियोजना मण्डल, जल संसाधन विभाग, भोपाल.
67	श्री के. के. चौरे, महाप्रबंधक	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित, प्रथम तल पंचानन भवन, मालवीय नगर, भोपाल.
68	श्री एम. के. वर्मा, उप संचालक	उद्योग संचालनालय, म.प्र., भोपाल
69	डॉ. एम. आर. खान, गियोलाजिस्ट	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन पर्यावरण परिसर ई-5, सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल.
70	डॉ. अजीत कुमार जैन, जनरल मैनेजर	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित, प्रथम तल पंचानन भवन, मालवीय नगर, भोपाल.
71	श्री एम.एस. सोलंकी, अपर संचालक	उद्योग संचालनालय, म.प्र., भोपाल
72	श्री एन.डी. अहिरवार, कार्यपालन यंत्री	म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, संभाग क्रमांक 03, लहारपुर, बागमुंगलिया, भोपाल
73	श्री एन.पी. माहोर, उप संचालक	हाथकरघा संचालनालय, मा.शि.मं. परिसर, शिवाजी नगर, भोपाल
74	श्री पी.सी. महाजन	कार्यालय, मुख्य अभियंता (बोधी) जल संसाधन विभाग विश्वेश्वरैया भवन कोलार कालोनी कैम्पस, लिंक रोड, नम्बर-3, भोपाल.
75	श्री आर. के. तिवारी, उप वनसंरक्षक	प्रधान वन संरक्षक कार्यालय, प्रथम तल सतपुड़ा भवन, भोपाल
76	डॉ. श्री टी.पी. वैद्य, उप संचालक	पशु चिकित्सा सेवायें, कुक्कुट अनुसंधान, कोटरा सुल्तानाबाद रोड, भोपाल
77	श्री संतोष कुमार जैन, उप संचालक	उद्योग, उद्योग संचालनालय, म.प्र., भोपाल
78	श्री लोकेन्द्र ठकर, शोध अधिकारी	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन पर्यावरण परिसर ई-5, सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल.
79	श्री एल.बी.एस. चौहान, सहायक संचालक	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विन्ध्याचल, भोपाल
80	श्री जे.के. दुबे, सहायक यंत्री	कार्यालय उप संचालक, जल मौसम विज्ञान संभाग, क्रमांक-1 जल संसाधन विभाग मैदामिल के पास होशंगाबाद रोड, भोपाल.

(1)	(2)	(3)
81	श्री बी.के. शांडिल्य, कार्यपालन यंत्री	एम.पी. स्टेट एग्री इंप्ट्री. डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल.
82	श्री ए.बी. मिश्रा, कार्यपालन यंत्री	कार्यालय, मुख्य अभियंता (वि/सु) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल.
83	श्री ए. एस. उईके, कार्यपालन यंत्री	कार्यालय, मुख्य अभियंता (वि/सु) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल.
84	श्री अजय कुमार जैन, अधीक्षण यंत्री	कार्यालय मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल
85	श्री आलोक नायक, शोध अधिकारी	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन पर्यावरण परिसर ई-5, सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल.
86	श्री अनिल कुमार थागेले, महाप्रबंधक	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित, प्रथम तल पंचानन भवन, मालवीय नगर, भोपाल.
87	श्री अनूप श्रीवास्तव, संरचना अधिकारी	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन पर्यावरण परिसर ई-5, सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल.
88	श्री बी. के. धारवा, महाप्रबंधक	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित, प्रथम तल पंचानन भवन, मालवीय नगर, भोपाल.
89	श्री के.सी. बास्केल, उद्यानिकी विशेषज्ञ	कार्यालय परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, जल संसाधन विभाग, भोपाल.
90	श्री एस.सी. बादल, सहायक यंत्री	सहायक यंत्री, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
91	श्री जी. एस. वाटवे, महाप्रबंधक	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित, प्रथम तल पंचानन भवन, मालवीय नगर, भोपाल.
92	श्री एच. एस. गौड़	कार्यालय, प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल.
93	श्री एन. के. सिंह, अधीक्षण यंत्री	कार्यालय परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, जल संसाधन विभाग, भोपाल.
94	श्री एन. के. त्रिपाठी, महाप्रबंधक	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित, प्रथम तल पंचानन भवन, मालवीय नगर, भोपाल.
95	श्री निशिकान्त हंस, अधीक्षण भौमिकीविद्	कार्यालय, संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल.
96	श्री पी.सी. चौधरी, कार्यपालन यंत्री	कार्यालय, भोपाल विकास प्राधिकरण, अरेरा हिल्स, भोपाल
97	श्री प्रदीप शर्मा, आर्थिक योजनाकार	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन पर्यावरण परिसर ई-5, सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल.
98	श्री आर. के. हिरोडिया, अधीक्षण यंत्री	कार्यालय, प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल.
99	श्री सुधीर कुमार बाघेला, कार्यपालन यंत्री	कार्यालय, मुख्य अभियंता (बोधी) जल संसाधन विभाग विश्वेश्वरैया भवन कोलार कालोनी कैम्पस, लिंक रोड, नम्बर-3, भोपाल.
100	श्री विनोद सिंघई, सहायक यंत्री	कार्यालय, भोपाल विकास प्राधिकरण, अरेरा हिल्स, भोपाल
101	श्री दिलीप शिन्दे, कार्यपालन यंत्री	कार्यालय, परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, जल संसाधन विभाग, भोपाल.

(1)	(2)	(3)
102	श्री एस. के. राठौर, सहायक संचालक	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विंध्याचल, भोपाल
103	श्री अजय कुमार शर्मा, वरिष्ठ भू-जल विद्	अधीक्षण, भू-जल विद्, भू-जल सर्वेक्षण मण्डल, कोलार रेस्ट हाउस के पास, भोपाल.
104	श्री जे. आर.प्रसाद कार्यपालन यंत्री	कार्यालय, मुख्य अभियंता (बोधी) जल संसाधन विभाग विश्वेश्वरैया भवन कोलार कालोनी कैम्पस, लिंक रोड, नम्बर-3, भोपाल.
105	श्री दीपक रत्नावत, अधीक्षण यंत्री	कार्यालय, नर्मदा परियोजना, माता मंदिर, भोपाल
106	श्री ए. के. पोरवाल, कृषि यंत्री	संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल
107	श्री शकील अहमद खान, उप संचालक	तकनीकी कार्यालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल.
108	श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला, उप संचालक	तकनीकी कार्यालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल.
109	श्री अनिल कुमार शर्मा, उप संचालक	तकनीकी कार्यालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल.
110	श्री अनूप मिश्रा, उप संचालक	कार्यालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल.
111	श्री सी. व्ही. सोरते, उप महानिरीक्षक	पंजीयन कार्यालय महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा, भोपाल.
112	श्री एम. के. साहू, कार्यपालन यंत्री	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, संभाग-4, भोपाल
113	श्री ए. के. एस. भदौरिया, अति. उप संचालक	पशु चिकित्सा सेवाएं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संचालनालय, भोपाल
114	डॉ. प्रियाकांत पाठक, सहायक संचालक	संचालनालय पशुपालन, वैशाली नगर, भोपाल
115	श्री जी. एस. डाबर, कार्यपालन यंत्री	कार्यालय, मुख्य अभियंता (बोधी) जल संसाधन विभाग विश्वेश्वरैया भवन कोलार कालोनी कैम्पस, लिंक रोड, नम्बर-3, भोपाल.
116	श्री जी. एस. नेताम, अपर आयुक्त	कार्यालय, आयुक्त आदिवासी विकास, म.प्र. भोपाल
117	श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, कार्यपालन यंत्री	मुख्य अभियंता (रा.प.), लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल.
118	श्री एम. आई. सिद्धीकी, उप संचालक	तकनीकी, कार्यालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन अरेरा हिल्स, भोपाल.
119	श्री एम. पी. सिंह, कार्यपालन यंत्री	म.प्र. लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, 12 दफ्तर जवाहर चौक, भोपाल.
120	श्री ओ.पी. द्विवेदी, उप संचालक	तकनीकी, कार्यालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन अरेरा हिल्स, भोपाल.
121	श्री टी. के. सिन्हा राय, कार्यपालन यंत्री	कार्यालय, कार्यपालन यंत्री म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल सं. क्र. 01, भोपाल.
122	श्री राकेश कुमार तिवारी, उप संचालक	तकनीकी, कार्यालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन अरेरा हिल्स, भोपाल.
123	श्री संजय दलेला, प्रबंधक वित्त	म.प्र. लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित 74 बंगले, इंदगा निकुंज खेल परिसर, भोपाल.

(1)	(2)	(3)
124	श्री संतोष कुमार गोरानी, कृषि यंत्री	संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल
125	श्री एस. एस. राय, वरिष्ठ रसायनविद्	अधीक्षण, भू-जल विद्, भू-जल सर्वेक्षण मण्डल, कोलार रेस्ट हाउस के पास, भोपाल.
126	श्री शिव कुमार शर्मा, महाप्रबंधक	म.प्र. महिला वित्त एवं विकास निगम, पर्यावास नगर, भोपाल
127	श्री तारिक शेख, सहायक भू-रसायनविद्	अधीक्षण, भू-जल विद्, भू-जल सर्वेक्षण मण्डल, कोलार रेस्ट हाउस के पास, भोपाल.
128	श्री अजय गोपाल, कार्यपालन यंत्री	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, प्रधान कार्यालय, पर्यावास भवन, भोपाल.
129	श्री अरूण कुमार बागड़ी, उप संचालक	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
130	श्री बी.डी. कोतवाल, कार्यपालन यंत्री	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, प्रधान कार्यालय, पर्यावास भवन, भोपाल.
131	श्री बालमुकंद कुसराम, कार्यपालन यंत्री	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
132	श्री दीपक गुप्ता, कार्यपालन यंत्री	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
133	श्री दिनकर मसूलकर, अधीक्षण यंत्री	कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल.
134	डॉ. निलेश शाह, सहायक संचालक	संचालनालय, पशु पालन वैशाली नगर, भोपाल
135	डॉ. अरुण कुमार शर्मा, उप संचालक	संचालनालय, पशु पालन वैशाली नगर, भोपाल
136	डॉ. शैलेन्द्र सोनी, सहायक संचालक	संचालनालय, पशु पालन वैशाली नगर, भोपाल
137	श्री जी. आर. वार्डकर, उप संचालक	लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल
138	डॉ. मनीष सिंह, सहायक संचालक	संचालनालय, पशु पालन वैशाली नगर, भोपाल
139	श्री के.सी. काण्डपाल, उप संचालक	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
140	श्री एम. के. कीरचल	कार्यपालन यंत्री, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, प्रधान कार्यालय, पर्यावास भवन, भोपाल.
141	श्री मस्तराम बघेल	कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
142	श्री नरेन्द्र मेश्रा, सहायक संचालक	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
143	श्री नितीन पोले	उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
144	श्री पी.एस. नायर, सहायक अनुविभागीय अधिकारी	कार्यालय संचालक, सिंचाई अनुसंधान जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल.
145	श्री प्यारेलाल घाघरे, कार्यपालन यंत्री	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
146	श्री आर. जी. गुप्ता, महाप्रबंधक	वित्त म.प्र. राज्य बीज एवं फॉर्म विकास निगम, भोपाल
147	श्री आर. के. शर्मा, उप संचालक	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
148	श्री एस. के. व्यास	कार्यालय, मुख्य अभियंता (लो.नि.वि.) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल.
149	श्री एस. एन. पाण्डे	उप संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल
150	श्री एस.व्ही. धोते	उप संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल
151	श्री संजय कुमार त्यागी वरिष्ठ प्रबंधक मुद्रण	मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

(1)	(2)	(3)
152	श्री एस. एस. एच. रिजवी, उप संचालक	लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल
153	श्री सुबोध श्रीवास्तव, उप संचालक	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
154	श्री सुधीर शिवहरे, उप संचालक	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
155	श्री अनिल कर्डक, सहायक यंत्री	भोपाल विकास प्राधिकरण, प्रगति भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल.
156	श्री यतीश त्रिपाठी, प्रबंधक वित्त	म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित 74-बंगले, इंद्रा निकुंज खेल परिसर, भोपाल.
157	श्री अशोक कुमार धमनिया	उप संचालक, म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, अरेरा हिल्स, भोपाल
158	श्री अरूण कुमार खरे, अधीक्षण यंत्री ई एण्ड एम	कार्यालय, प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल.
159	श्री डी. एस. ठाकुर, संयुक्त संचालक	संयुक्त संचालक, कौशल विकास सतपुड़ा भवन, भोपाल
160	श्री धर्मेन्द्र कठल, कार्यपालन यंत्री	भोपाल विकास प्राधिकरण, प्रगति भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल.
161	डॉ. बी. के. तैलंग, प्रबंधक	संचालनालय पशु पालन, वैशाली नगर, भोपाल
162	डॉ. लक्ष्मीनारायण रेड्डी	उप संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल
163	डॉ. मोहन सेन, उप संचालक	तकनीकी शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल
164	डॉ. प्रखर भार्गव, सहायक संचालक	संचालनालय पशु पालन, वैशाली नगर, भोपाल
165	डॉ. आर. के. दिलावरे, संयुक्त संचालक	संचालनालय पशु पालन, वैशाली नगर, भोपाल
166	डॉ. आर. के. मेहिया	संचालनालय पशु पालन, वैशाली नगर, भोपाल
167	डॉ. टी. डी. चेलानी, उप संचालक	तकनीकी शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल
168	श्री एम. बी. शर्मा, सहायक यंत्री	भोपाल विकास प्राधिकरण, प्रगति भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल.
169	श्री यतीश जैन, कार्यपालन यंत्री	भोपाल विकास प्राधिकरण, प्रगति भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल.
170	श्री पी. के. वर्मा, कार्यपालन यंत्री	कार्यालय, मुख्य अभियंता (बोधी) जल संसाधन विभाग विश्ववैश्वरैया भवन कोलार कालोनी कैम्पस, लिंक रोड, नम्बर-3, भोपाल.
171	श्री पी. पी. सिंह, कार्यपालन यंत्री	भोपाल विकास प्राधिकरण, प्रगति भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल.
172	श्री आर. के. खरे, प्रशासनिक अधिकारी	भोपाल विकास प्राधिकरण, प्रगति भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल.
173	श्री प्रफुल्ल कुमार दीक्षित, उप संचालक	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, अरेरा हिल्स, भोपाल
174	श्री आर. पी. दुबे, कार्यपालन यंत्री	भोपाल विकास प्राधिकरण, प्रगति भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल.
175	श्री सुखबीर सिंह, कार्यपालन यंत्री	भोपाल विकास प्राधिकरण, प्रगति भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल.
176	श्री व्ही. पी. मालवीय, वा. नियो.	भोपाल विकास प्राधिकरण, प्रगति भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल.

(1)	(2)	(3)
177	श्री एस. व्ही. चौबे	उप संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल
178	श्री बी. एन. चौबे, सहायक यंत्री	भोपाल विकास प्राधिकरण, प्रगति भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल.
179	श्री संजय वर्मा	अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमि. ऊर्जा भवन, 5 नं. स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल.
180	श्री बी. एस. चिढ़ार, उप संचालक	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, 74 अरेरा हिल्स, केन्द्रीय विद्यालय, भोपाल
181	श्री अशोक कुमार जैन	उप संचालक, म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, अरेरा हिल्स, भोपाल
187	श्री विनोद कुमार शाक्य, सहायक संचालक	सहायक संचालक, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल.
188	श्री अरूण कुमार तिवारी	जिला अंकेक्षक कार्यालय, उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल.
189	श्री अखिलेश कुमार	हिन्दी अधिकारी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान नेहरू नगर, भोपाल
190	श्री जय प्रकाश मिंज	स.प्र.अ. भारतीय जीवन बीमा निगम, 6 मालवीय नगर, भोपाल
191	श्री आर. के. साल्वे	सहा. यंत्री, मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी संस्थान एम.ए.सी.टी., भोपाल
192	श्री आर. डी. सोनकर	सहायक यंत्री अधीक्षण यंत्री, कोलार परियोजना मंडल जल संसाधन विभाग, मेन रोड नं. 3
193	श्री सी. एल. पटेल	अनु. अधिकारी, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आर.ई.एस., पुराना सचिवालय, भोपाल.
194	श्री रमेश चन्द्र तिवारी	सहायक संचालक, म.प्र. कृषि विपणन बोर्ड, अरेरा हिल्स, भोपाल
195	श्री राम निवास शर्मा	उपयंत्री प्रमुख अभियंता, लो.नि. विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल
196	श्री सुनील कुमार कपंजर	उपयंत्री प्रमुख अभियंता, लो.नि. विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल
197	श्री एस. शुक्ला	सहा. यंत्री, मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी संस्थान एम.ए.सी.टी., भोपाल
198	श्री मो. इकराम	उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री वि/यां. लाईट मशीनरी नलकूप गेट संभाग अमरकंटक भवन, भोपाल.
199	श्री विपिन गुप्ता	उप यंत्री कार्यपालन यंत्री नया भोपाल संभाग लो./नि. विभाग
200	श्री विनोद पाठक	अनुभाग अधिकारी मंडी बोर्ड, भोपाल
201	श्री घनश्याम मीणा	विकास अधिकारी भारतीय जीवन बीमा निगम, भेल शाखा, भोपाल
202	श्री विष्णु प्रसाद शर्मा	उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री वि/यां. लाईट मशीनरी नलकूप गेट संभाग अमरकंटक भवन, भोपाल.
203	श्री आर. एस. मालवीय	अनुविभागीय अधिकारी संचालक सिंचाई अनुसंधान जल संसाधन विभाग, तुलसीनगर, भोपाल.
204	श्री ओमप्रकाश गावंडे	प्रशासनिक अधिकारी शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, जी.टी.वी. काम्प्लेक्स, भोपाल.
205	श्री सुरेश गोयल	स.बी.प्र.अधि. म.प्र. बीज प्रमाणीकरण संस्था स्थानीय
206	श्री व्ही. के. गुप्ता	उपयंत्री म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, कोलार रोड, भोपाल

(1)	(2)	(3)
207	श्री के. आर. धारे	सहायक यंत्री, संचालक सिंचाई अनुसंधान जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल.
208	श्री भवानी शंकर वर्मा	उपयंत्री कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आर.ई.एस. पुराना सचिवालय, भोपाल.
209	श्री मनोज गुप्ता	उपयंत्री कार्यपालन यंत्री नया भोपाल संभाग लो.नि. विभाग
210	श्री नर्मदा प्रसाद सावनेर	अंकेक्षण प्राधिकारी आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, विन्ध्याचल भवन, भोपाल.
211	श्री आशुतोष सोनी	सहा. यंत्री कार्यालय मुख्य वास्तुविद सह मुख्य अभियंता प्लाट नं. 27-28 अरेरा हिल्स निर्माण भवन, भोपाल.
212	श्री अविनाश सोनी	सहा. यंत्री कार्यालय मुख्य वास्तुविद सह मुख्य अभियंता प्लाट नं. 27-28 अरेरा हिल्स निर्माण भवन, भोपाल.
213	श्री कृष्णकुमार चौधरी	सहा. निरीक्षक, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, विन्ध्याचल भवन, भोपाल.
214	श्री जे. के. गुप्ता	सहा. यंत्री, म.प्र. जल एवं भूम प्रबंधन संस्थान, कोलार रोड, भोपाल
215	श्री आशाराम मालवीय	मुख्य मानचित्रकार, कार्यालय मुख्य वास्तुविद सह मुख्य अभियंता प्लाट नं. 27-28 अरेरा हिल्स निर्माण भवन, भोपाल.
216	श्री लोकेश चन्द्र मिनेश	मानचित्रकार, म.प्र. कृषि विपणन बोर्ड, अरेरा हिल्स, भोपाल
217	श्री अशोक यादव	मानचित्रकार, म.प्र. कृषि विपणन बोर्ड, अरेरा हिल्स, भोपाल
218	श्री पी. एन. पंत	उपयंत्री म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड संभाग-4, अयोध्यानगर, भोपाल.
219	श्री एम. के. तिवारी	उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग विद्यानगर, भोपाल
220	श्री सी. एल. पटेल	अनु. अधि. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आर.ई.एस. पुराना सचिवालय, भोपाल.
221	श्री पी. के. वर्मा	उपयंत्री म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड संभाग-4, अयोध्यानगर, भोपाल.
222	श्री जी. एस. गुप्ता	उपयंत्री म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड संभाग-4, अयोध्यानगर, भोपाल.
223	श्री जे. पी. पटवा	उपयंत्री म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड संभाग-4, अयोध्यानगर, भोपाल.
224	श्री प्रभात चंद्र चतुर्वेदी, सहायक यंत्री	कार्यालय, प्रमुख अभियंता बोधी जल संसाधन विभाग विश्ववैश्वरैया भवन कोलार रोड, केम्पस लिंग रोड, भोपाल.
225	श्री गिरीश चंद्र शर्मा, उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, नया भोपाल संभाग लो.नि.वि.
226	श्री आर. के. चौरिया, सहायक यंत्री	प्रमुख अभियंता बोधी जल संसाधन विभाग विश्ववैश्वरैया भवन कोलार रोड, भोपाल.
227	श्री ए. के. चटर्जी, सहायक यंत्री	प्रमुख अभियंता बोधी जल संसाधन विभाग विश्ववैश्वरैया भवन कोलार रोड, भोपाल.
228	श्री संजीव कुमार त्यागी, वरि. प्रबंधक वितरण	महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश पाट्य पुस्तक निगम, भोपाल

(1)	(2)	(3)
229	श्री अरूण शुक्ला, उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, नया भोपाल संभाग लो.नि.वि.
230	श्री आर. के. जैन, शोध अधिकारी	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन पर्यावरण परिसर ई-5, सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल.
231	श्री संजीव दास, सहायक यंत्री	प्रमुख अभियंता, बोधी जल संसाधन विभाग विश्ववैश्वरैया भवन कोलार रोड, कैम्पस लिंक रोड, भोपाल.
232	श्री के. एन. शर्मा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बैरसिया नगरपालिका, बैरसिया
233	श्री सतीश कुमार बाथम	अंकेक्षण अधिकारी, सहायक आयुक्त, सहकारिता डी-ब्लॉक पुराना सचिवालय, भोपाल.
234	श्री शंकर विश्वास	जोनल अधिकारी, जोन क्रमांक-2, कार्यालय, जोनल अधिकारी, रायल मार्केट, जी.पी.ओ. के सामने, भोपाल.
235	श्री अखिलेश जैन	जोनल अधिकारी, जोन क्रमांक-3, कार्यालय, जोनल अधिकारी, डी.आई.जी. बंगला के सामने, बैरसिया रोड, भोपाल.
236	श्री बी. के. शर्मा	सहायक वाणिज्यकर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यकर अधिकारी, कर भवन, विठठल मार्केट.
237	श्री एस. एन. मालवीय	जोनल अधिकारी जोन क्रमांक-9, कार्यालय जोनल अधिकारी जोन क्रमांक-9 चांदबड़ पानी की टंकी के पास, भोपाल.
238	श्री दिनेश शर्मा	जोनल अधिकारी, जोन क्रमांक-8, कार्यालय जोनल अधिकारी जोन क्रमांक 8, पुल बोगदा फायर ब्रिगेड, भोपाल.
239	श्री सुधीर कुमार गुप्ता	सहायक वाणिज्यकर अधिकारी कार्यालय वाणिज्यकर अधिकारी, कर भवन, विठठल मार्केट.
240	श्री ताराचंद काटवाले	उप संचालक, उद्यान संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विन्ध्याचल भवन, भोपाल.
241	श्री प्रेमशंकर शुक्ला	जोनल अधिकारी जोन क्रमांक 6, कार्यालय जोनल अधिकारी, जोन क्रमांक 6, हर्षवर्धन शापिंग काम्प्लेक्स माता मंदिर, भोपाल.
242	श्री इन्द्रदेव सिंह	जोनल अधिकारी, जोन क्रमांक 10, शिवाजी नगर, मेन मार्केट 6 नंबर स्टाप, भोपाल.
243	श्री मुकेश कुमार मिश्रा	उप संचालक, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विन्ध्याचल भवन, भोपाल.
244	श्री एम. पी. खरे	सहा. संचालक, उद्यान संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विन्ध्याचल भवन, भोपाल.
245	श्री छगन लाल झा	जोनल अधिकारी, क्रमांक-4, जोनल अधिकारी जोन क्रमांक-4, मंगलवारा थाने के सामने, भोपाल.
246	श्री हर्षित तिवारी	जोनल अधिकारी जोन क्रमांक-11, कार्यालय जोनल अधिकारी, 12 नं. बस स्टाप, ई-8/815 पानी की टंकी के पास, भोपाल.
247	श्री शरद भानमोडे	उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री, नया भोपाल संभाग लो.नि.वि.
248	श्री अजीत प्रजापति	सहा. प्रबंधक, म.प्र. खादी तथा ग्रामउद्योग बोर्ड 74-अरेरा हिल्स, भोपाल

(1)	(2)	(3)
249	श्री पी. के. जैन	जोनल अधिकारी जोन क्रमांक-12, बी.एच.ई.एल. जोन-12, यांत्रिकी मुख्यालय कार्मल कान्वेंट स्कूल के पास, भोपाल.
250	श्री मो. शमीम	जोनल अधिकारी, जोन क्रमांक-13, कार्यालय जोनल अधिकारी जोन क्रमांक-13, सोनागिरी जुबली गेट के सामने, भोपाल.
251	श्री रविशंकर शर्मा	उपयंत्री, कार्यालय उप संचालक एवं कार्यपालन यंत्री विशिष्ट सेवा संभाग केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई जल संसाधन विभाग, भोपाल.
252	श्री धीरज सिंह ठाकुर	उपयंत्री, कार्यालय, उप संचालक एवं कार्यपालन यंत्री विशिष्ट सेवा संभाग केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई जल संसाधन विभाग, भोपाल.
253	श्री एम. पी. शाणिल्य	जोनल अधिकारी, जोन क्रमांक-1, जोनल अधिकारी जोन क्रमांक-1, संत हिरदाराम नगर, पानी की टंकी के पास, भोपाल.
254	श्री अजय शुक्ला	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, फंदा, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, फंदा, भोपाल.
255	श्री प्रभूदयाल तिवारी	उपयंत्री, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड 5-नंबर स्टाप लिंक रोड नंबर 2, भोपाल.
256	श्री व्ही. के. गहलोत	प्रोफेसर, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान माता मंदिर के पास, भोपाल.
257	श्री प्रताप बागडे, सहायक यंत्री	कार्यालय प्रमुख अभियंता बोधी जल संसाधन विभाग विश्ववैश्वरैया भवन, कोलार रोड, भोपाल.
258	श्री के. एल. पालीवाल, वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक	आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भोपाल
259	श्री प्रमील कुमार यादव, सहायक यंत्री	कार्यालय प्रमुख अभियंता बोधी जल संसाधन विभाग विश्ववैश्वरैया भवन, कोलार रोड, भोपाल.
260	श्री ओ. पी. राय, सहकारी निरीक्षक	आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भोपाल
261	श्री महेश मिश्रा, शोध अधिकारी	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन पर्यावरण परिसर ई-5, सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल.
262	श्री जे. पी. गनोते, सहायक यंत्री सिविल	प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सतपुड़ा भवन, भोपाल.
263	श्री एस. के. जाटव, सहायक यंत्री	कार्यालय प्रमुख अभियंता बोधी जल संसाधन विभाग विश्ववैश्वरैया भवन, कोलार रोड, भोपाल.
264	श्री अनुराग सक्सेना, उपयंत्री	मुख्य वास्तुविद सह मुख्य अभियंता प्लाट नं. 27-28 अरेरा हिल्स, भोपाल
265	श्री नरेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ अंकेक्षक	म.प्र. मंडी बोर्ड, भोपाल
266	श्री ओ. पी. जायसवाल, वाणिज्यकर अधिकारी	वाणिज्यकर अधिकारी, कर भवन, विठठल मार्केट, भोपाल

निशांत बरवडे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.